



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2017/वैशाख 22, 1939

No. 367]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2017/VAISAKHA 22, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2017

सं. 19/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 462(अ).—**अभिहित प्राधिकारी ईरान (जिसे इसके बाद विषयगत देश कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “क्लियर फ्लोट ग्लास जिनकी न्यूनतम मोटाई 4 मिमी. से 12 मिमी. है” (जिसे इसके बाद विषयगत माल कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 और 7020 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, तारीख 20 मार्च, 2017 में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 14/7/2015-डीजीएडी, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

- (i) विषयगत माल का निर्यात विषयगत देश से इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया है;
- (ii) विषयगत देश से विषयगत माल के आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;
- (iii) वास्तविक क्षति विषयगत देश से पाटित आयातों के कारण हुई है;

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत माल के लिए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाया जाए, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपादन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्वारा विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्भूत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में

विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कॉलम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है।

### सारणी

क्र.स.	टैरिफ मद	उपशीर्ष	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	7003, 7004 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, या 7020	बीआईएस के अनुसार 14900:2000 न्यूनतम मोटाई 4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों सम्मिलित) के क्लियर फ्लोट ग्लास	ईरान	ईरान	मैसर्स कावेह फ्लोट ग्लास कंपनी ईरान	मैसर्स बिस्माक जीएम बीएच कंपनी, जर्मनी	शून्य	मी. टन	अमरीकी डालर
2	7003, 7004 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, या 7020	बीआईएस के अनुसार 14900:2000 न्यूनतम मोटाई 4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों सम्मिलित) के क्लियर फ्लोट ग्लास	ईरान	ईरान	मैसर्स अर्दाकन फ्लोट ग्लास कंपनी ईरान	मैसर्स सिंबल व्हाइट इंटरनेशनल एलएलसी, ओमान	52.32	मी. टन	अमरीकी डालर
3	7003, 7004 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, या 7020	बीआईएस के अनुसार 14900:2000 न्यूनतम मोटाई 4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों सम्मिलित) के क्लियर फ्लोट ग्लास	ईरान	ईरान	क्रमांक 1 और 2 से भिन्न कोई अन्य देश		55.59	मी. टन	अमरीकी डालर
4	7003, 7004 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, या 7020	बीआईएस के अनुसार 14900:2000 न्यूनतम मोटाई 4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों सम्मिलित) के क्लियर फ्लोट ग्लास	ईरान	कोई	कोई	कोई	55.59	मी. टन	अमरीकी डालर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

**स्पष्टीकरण :** इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू “विनिमय दर” वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/205/2016-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2017

**No. 19/2017-Customs (ADD)**

**G.S.R. 462(E).**— Whereas in the matter of ‘Clear Float Glass of nominal thickness ranging from 4mm to 12mm (both inclusive)’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under chapter headings 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 or 7020 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) {hereinafter referred to as the Customs Tariff Act}, originating in, or exported from Iran (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification number 14/7/2015-DGAD dated the 20<sup>th</sup> March, 2017, has come to the conclusion that—

- (a) the subject goods have been exported to India from subject country below its normal value, thus resulting in dumping of the product;
- (b) the domestic industry has suffered material injury due to dumping of the subject goods;
- (c) the material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country;

And, whereas, the designated authority has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes definitive anti-dumping duty on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under chapter heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9), of the said Table, namely :—

TABLE

S. No.	Chapter heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, 7020	Clear Float Glass of nominal thickness ranging from 4mm to 12mm (both inclusive), the nominal thickness as per BIS 14900:2000	Iran	Iran	M/s Kaveh Float Glass Co., Iran	M/s. Bismaak GmbH, Germany	NIL	Metric Ton	United States Dollar
2.	7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, 7020	Clear Float Glass of nominal thickness ranging from 4mm to 12mm (both inclusive), the nominal thickness as per BIS 14900:2000	Iran	Iran	M/s. Ardakan Float Glass Co. , Iran	M/s. Symbol White International L.L.C., Oman	52.32	Metric Ton	United States Dollar
3.	7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, 7020	Clear Float Glass of nominal thickness ranging from 4mm to 12mm (both inclusive), the nominal thickness as per BIS 14900:2000	Iran	Iran	Any Other than S. No. 1 and 2	Any Other than S. No. 1 and 2	55.59	Metric Ton	United States Dollar
4.	7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, 7020	Clear Float Glass of nominal thickness ranging from 4mm to 12mm (both inclusive), the nominal thickness as per BIS 14900:2000	Iran	Any	Any	Any	55.59	Metric Ton	United States Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

*Explanation :* For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F.No.354/205/2016-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.